

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरातना कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited

(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcl.in

पत्रक० एनसीएल/ज०स०वि०/प्रेसवि०/2017-18/445

दिनांक - 01/12/2017

प्रेस विज्ञप्ति

एनसीएल ने बिजली घरों को 18% बढ़ाई कोयले की सप्लाई

सिर्फ नवंबर महीने में ईंधन आपूर्ति समझौते से भी 4 प्रतिशत अधिक कोयला सप्लाई किया

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने चालू वित्त वर्ष में अब तक (1 अप्रैल से 30 नवंबर तक) अपने कोयला ग्राहक बिजली घरों को 51.08 मिलियन टन कोयले की सप्लाई की है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 43.25 मिलियन टन थी। यानी चालू वित्त वर्ष में अब तक एनसीएल ने बिजली घरों को पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले लगभग 18 प्रतिशत अधिक कोयले की सप्लाई की है।

एनसीएल ने सिर्फ नवंबर महीने में बिजली घरों को 7.250 मिलियन टन कोयले की सप्लाई की है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 6.210 मिलियन टन थी। इस प्रकार एनसीएल ने सिर्फ नवंबर 2017 में नवंबर 2016 की तुलना में अपने कोयला ग्राहक बिजली घरों को लगभग 17 प्रतिशत अधिक कोयला दिया है। बिजली घरों के साथ अपने ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) के तहत को एनसीएल को सिर्फ नवंबर महीने में 6.974 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति करनी थी, लेकिन 7.250 मिलियन कोयला आपूर्ति के साथ कंपनी ने एफएसए के तहत निर्धारित कोयला आपूर्ति से भी अधिक 104 प्रतिशत कोयले की सप्लाई की है। एनसीएल अपने कुल कोयला उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत बिजली घरों को सप्लाई करती है।

चालू वित्त वर्ष में कंपनी ने अपने समस्त कोयला ग्राहकों (बिजली घरों सहित) को किए जाने कोयला प्रेषण (डिस्पैच) में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने 30 नवंबर तक 62.01 मिलियन टन कोयला प्रेषण किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में किए गए 52.12 मिलियन टन कोयला प्रेषण से लगभग 19 प्रतिशत अधिक है। 62.01 मिलियन टन कोयला प्रेषण के साथ कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के कुल कोयला प्रेषण लक्ष्य का दो तिहाई भाग 8 महीनों में ही प्राप्त कर लिया है। एनसीएल को वित्त वर्ष 2017-18 में कुल 91 मिलियन टन कोयला प्रेषण का लक्ष्य दिया गया है।

इसके अतिरिक्त एनसीएल ने वर्तमान वित्त वर्ष में 30 नवंबर तक दिए गए कोयला प्रेषण लक्ष्य को भी प्राप्त किया है। कोयला प्रेषण लक्ष्य के अनुसार कंपनी को वित्त वर्ष 2017-18 में 30 नवंबर, 2017 तक 56.86 मिलियन टन कोयला प्रेषण करना था, जबकि कंपनी ने इस अवधि में निर्धारित लक्ष्य का लगभग 110 प्रतिशत कोयला प्रेषण किया है।

कोयला प्रेषण की तरह कोयला उत्पादन में भी एनसीएल ने चालू वित्त वर्ष में शानदार वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने 30 नवंबर, 2017 तक 58.80 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 50.63 मिलियन टन था। एनसीएल ने चालू वित्त वर्ष में अब तक पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि से 16 प्रतिशत अधिक कोयला उत्पादन किया है। कंपनी ने 30 नवंबर तक दिए गए कोयला उत्पादन लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया है। एनसीएल को 30 नवंबर तक 57.86 मिलियन टन कोयला उत्पादन करना था, जबकि कंपनी ने इस अवधि में निर्धारित लक्ष्य का लगभग 102 प्रतिशत कोयला उत्पादन किया है। एनसीएल को वित्त वर्ष 2017-18 में 91 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है।

जनसंपर्क अधिकारी